

MAHAMAYA STEEL INDUSTRIES LIMITED





CIN: L27107CT1988PLC004607

ISO 9001:2015

REGD. OFFICE & WORKS:

B/8-9, Sector-C, Sarora, Urla Industrial Complex, Raipur-493 221 Chhattisgarh



Phone : 0771 4910058

091099 88271

E-mail: marketing@mahamayagroup.in

Website: www.mahamayagroup.in

Ref: MSIL/2025-26/

Date: 23.07.2025

The Secretary, Listing Department BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai – 400 00 l Maharashtra, India Scrip Code: 513554 The Manager
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1
G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400 001
Maharashtra, India

Symbol: MAHASTEEL

Dear Sir/Madam

Sub.: Newspaper Advertisement regarding Special Window for Re-lodgement of Transfer Requests of Physical Shares

Pursuant to regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith, extracts of the Newspaper Publications published in the Business Standard (all editions) and Amrit Sandesh Raipur on Wednesday 23rd July, 2025, regarding Notice to Shareholders about opening of Special Window for Re-lodgement of transfer requests, of Physical Shares in accordance with SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 02, 2025.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For, Mahamaya Steel Industries Limited

Jaswinder Kaur Mission
Company Secretary & Compliance

M.No. FCS 7489 Encl: as above

APPROVED SUPPLIER OF : BSP, BHEL, DGS&D, DMRC, SAIL, RIL, NTPC, SEBs, RDSO, CORE, ONGC, GAIL, EIL

· MANUFACTURERS : JOIST, CHANNEL, ANGEL, FLAT, ROUND, CROSSING SLEEPER BAR, BLOOM, BILLET etc.



Regd. Office: Plot No. B/8-9, Sector C, Sarora Urla Industrial Area, Raipur 493 221 (C.G.) Ph.+91-771-4910058, E-mail: cs@mahamayagroup.in Website: www.mahamayagroup.in CIN: L27107CT1988PLC004607

NOTICE TO SHAREHOLDERS

OPENING OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

Notice is hereby given that in terms of SEBI Circular No. SEBIHO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, a special window has been opened only for relodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 1, 2019 and rejected / returned / not attended, due to deficiency in the documents/process or otherwise. The re-lodgement window shall remain open for a period of six months i.e. from July 7, 2025 till January 6, 2026.

Eligible shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA), MUFG Intime India Private Limited (Formerly Link Intime India Private Limited) at email ID rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com or at their office at C-101, 247 Park.LBS_Marg, Vikhroli- 400083Mumbai (M.H.) or The Company at cs@mahamayagroup.in for further assistance.

During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the Company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode, once all the documents are found in order by RTA. The lodger must have demat account and provide its Client Master List ("CML"), along with the transfer documents and share certificates, while re-lodging the documents for transfer with RTA.

Place: Raipur Date: July 22, 2025

For, Mahamaya Steel Industries Limited

Laswinder Kaur Mission

Company Secretary & Compliance Officer



DIC INDIA LIMITED

CIN: L24223WB1947PLC015202 Registered Office: UB 03, Mani Tower 31/41 Binova Bhave Road, Behala, Kolkata-700038 Email id: investors@dic.co.in . Website: www.dic.co.in

Pursuant to SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97, dated July 02, 2025, the Company is pleased to offer one time special window for Physical Shareholders to submit relodgement requests for the transfer of shares. The Special Window will open from July 07, 2025 to January 06, 2026 and is applicable to cases where original share transfer requests were locged prior to April 01, 2019 and were returned/unattended or rejected due to deficiencies in documentation, process or any other reason. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialized form during this window. Eligible shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) at C. B. Management Services Private Limited, Rasoi Court, 5th Floor, 20, Sir R. N. Mukherjee Road, Kolkata-70001, or for any query may reach out to RTA via Phone at 933-2280 6692-94/40116700 or E-mail at rta@cbmsl.com

For DIC India Limited Meghna Saini Company Secretary & Compliance Officer A-42587

Place Noida Date : July 22, 2025

E-AUCTION SALE NOTICE

AMRIT HATCHERIES PRIVATE LIMITED (IN LIQUIDATION) Regd Office: 158, LENIN SARANI, KOLKATA-700013, WEST BENGAL

Liquidator's Address: Sumedha Management Solutions Pvt. Ltd. 8B Middleton Street, 8A Geetanjali, Kolkata - 700 071, India Contact: 8240634019 ; E-mail: ip.amrithatcheriespyiltd@gmail.com

E-Auction Notice for the sale of below mentioned assets on "AS IS WHERE IS BASIS", "AS IS WHAT IS BASIS", "WHATEVER THERE IS BASIS" and "WITHOUT RECCURSE BASIS" is hereby given to the public in general u/s 35(f) of the Insolvency and Bankruptcy Code 2016 r.w. Regulation 33 & Schedule I of the Liquidation Regulations as on date as mentioned in the table

Submission of Requisite Forms, Affidavits, Declaration etc., along with Refundable Deposit by the Prospective Bidder	To be submitted online directly at the E-Auction Portal at https://ibbi.baanknet.com/from 23.07.2025 to 21.08.2025			
Site Visit / Inspection Date	From 23.07.2025 till 21.08.2025 before 5:00 p.m.			
Last date of EMD Deposit	On or before Thursday, 21 08.2025, before 5:00 p.m.			
Date & Time of e-auction-	The sale will be done by the undersigned through https://baanknet.com e-auction platform provided at the Web Portal on 25.08.2025 (Monday) from 3.00 p.m. to 5.00 p.m.			

SCHEDULE OF ASSETS				(in Crores)	
Lot No.	Description of Assets	Reserve Price	EMD	Incremental Amount	
3.	Land & Building structures, Plant & Machineries & Vahicles located at Mcuza: Ambari, Hazarigram, J.L. No. 169, P.S Onda, Dist.: Bankura	8.54 crores	0.85 crores	0.10 -crores	

The sale shall be subject to the detailed terms and conditions prescribed in the Process Document available at https://baanknet.com and to the following conditions

- The particulars of the assets specified in the Schedule hereinabove have been stated to the best information of the liquidator, but the liquidator shall not be answerable for any error, misstatement, or omission in this procamation.
- It shall be the responsibility of the bidders to inspect and satisfy themselves about the asset and specification within the timelines specified in the process document. The inspection of assets put on auction will be permitted to interested bidders at sites within the timelines specified above
- The Liquidator shall not be responsible for any charge, lien, encumbrances, or any other dues to the Government or anyone else in respect of the assets e-auctioned. The intending bidder is advised to make their own independent inquiries regarding the encumbrances on the property including statutory liabilities, arrears of property tax, electricity due's etc
- The Bidders are requested to go through the Process Document before submitting their bids and taking part in the e-auction sale proceedings.
- Kindy take note that the interested applicants/prospective bidders shall submit an undertaking that they do not suffer from any ineligibility under Section 29A of the Code to the extent applicable and in case they are found ineligible at any stage, the earnest money deposited shall be forfeited.

Disclaimer: The Advertisement purports to ascertain the interest of Bidders and does not create any kind of binding obligation on the part of the Liquidator. The Liquidator reserves the right to amend and/or annul this invitation including any timelines or the process involved herein, without giving reasons, at any time, and in any respect. Any such amendment in the invitation, including the aforementioned timelines, shall be notified.

Bijay Murmuria Liquidator, M/s. Amrit Hatcheries Pvt. Ltd. IBBI Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-N00007/2016-17/10026 AFA Valid Upto 31.12.2025

Place: Kolkata Date: 23.07.2025



It has come to our name of SwiftOr (Centrum) and mis the Google Playst by this entity and I as Telegram, Youl These fraudsters represent Centru payments under v subscription fee recommendations We hereby clarify t Centrum does no groups.

Centrum does not digital channels. official and verifiat We urge the public all communication solicitations.

Centrum disclaim: interactions that impersonators.

If you come acros helpline:

1800 123 313131 Issued in Public In



A COMPANY FOCUSSED ON ELECTRONIC PAYMENTS

R S SOFTWARE (INDIA) LIMITED

(CIN: L72200WB1987PLC043375)

Registered Office: "FMC Fortuna", 1st Floor, A-2, 234/3A, A.J.C. Bose Road, Kolkata - 700 020

Phone Nos : 033 22876254 / 6255 / 5746 Fax No : 033 22876256 Company's website: www.rssoftware.com

Aditva Bii



वीएससी नर्सिंग कोर्स देतु ऑनलाइन प्रवेश खूचना २०२५ (केवल ऋजजा छछाओं हेतु)

खोरास्ती (जिसिंग):

1. तेरी में मिसा मिनो में (जीका, प्राप्त कह कोली में का में का में का मंत्र के बात मोह कोली मेंदर प्राप्त कहा की महिला है हुए की तह उत्पाद की साम में का में का मान की का मोह कोली मेंदर प्राप्त की अपने मिना किया है है।

2. भीवार मेंदर में मोने एक प्राप्त है।

3. भीवार मेंदर में मोने एक प्राप्त है।

4. भीवार मेंदर में मोने एक प्राप्त की मान मिना मेंदर मेंदर

(24.5.17,02.6) में बहुत पूर्वा में आपी के लिए जाना है।
पार्टावर पिट्टा
क्या है जब बेबान (अक्या) अपनी के लिए जाना है।
पार्टावर पिट्टा
क्या है जब बेबान (अक्या) अपनी के लिए जाना है।
पार्टावर पिट्टा
क्या है जिस्से के अपनी के अस्पाद के अपनी के अपनी अपनी अपनी अपनी क्या के अपनी के अपनी

के स्वारंग ("अनुसाधान अपार पर की नागी। के अपार की का चान मीच ये अध्या पर की नागी। के अपार के अध्या पर अपार पर की नागी। कोई के अध्या पर अपार की नागी की अध्या में किसी की असार की अपार असार मा किमीपीया। प्राथम अपार अस्मित्र अस्मित्र ("Att 4500) में किसी की असार की अपार असार मा किमीपीया। पर अपार की अस्मित्र ("Att 4500) में किसी की असार की असार की असार की असार की असीपीया की वार्तिका की असीपीया की असार की असार की असार की असार की असीपीया असीपीय

नीतामी के 13वें दौर के तिए सार्वजनिक सुदना का परिशिष्ट - पूज लॉवड निषिदेड (परिशमापन में) अने को बनु करनव के अवरात में के केवल कर के पूजन संस्कृति के नेद की बेजी दिवार और बेजीवलर मेरिज आप के जुन्हा एक्ट दरकोंड कर करने के बीच के किए प्राप्त 1945

परस्थ व ब्रह्	efter for fores	RAS OF MARKS	र्व वैज्ञामी वर्षे विवर्षे वर्षेत्र समय	इक्टीन मुख्य (क्टिकेट संबंध के	इंज्यो तीत (चालीट प्राप्त दे) और तट प्रश्नेच प्रतिकारित
श्चर्यक रहते ।	पूज क्षेत्रक निवादेश यो नवस हिन्दी कुछ जाउक्तरक को खेळकर जन्म कर निवादेश के स्थादित किया निवाद र	150 km to 4500 gr	14 (1777 94) (19 180) 183 (19 82 (12 83 (19	308.001 dFG:	ाते यह स्थान ११ (स्थान प्रशासिका १९४) प्रस्ते
SAG:	Calaba Shirts of Bullion Monator of Bull	Tendion tendion	24 (Here 2625 15 60 80 A	nevzia.	is entired is sent at the sent
		MI P	87.20.43.39 31.30M 2835		514 kg.3
455 41	स्थान प्रदेश के स्थानकुर में उध्यक्तिक सुन्न स्थान और गरिवा क्षा प्रश्निकी का प्रस्त	सामृतिक अस्तित स	12 07 64 12 17 37 64 12	19.00 4918	\$1 994 905 000 240 800
edit Ac s	स्थानार के सिक्टूड़ी रिकट में पूर्व कर जिल्हा	Store at	15-00 KR 08 15-00 KR 08	76 70 4545	o white both in a common of the common of th
radir du i	केल्स्टर संभूके रहे कि.स. १, १८००	Stating dis.	24 9850 2625 1:2 05 8870 87:02 4-8 50	87 00 (F3	STYLE MINE STANKER BECOMES TO THE BEST
este	pillers a angusuf ensure.	englica	04 9483 7619 (0.65 63 W	24 00 mais	Supplies Supplies to a

का में पूर्वकर कर है। "अपने कार्य कर विशेष के कार्य कर कर है। अपने कर कर है। "अपने कर कर है। "अपने कर कर है। "अपने कर कर है। "अपने कर है कि अपने हैं कि अपने कर है कि अपने हैं कि अपने कर है कि अपने हैं कि अपने कर है कि अपने हैं कि अपने हैं

ল। হৈছিল জী সাৰ্বাস্থ্যৰ বিজ্ঞান্ত ই এ আহে বিভাগ দী আহিব হৈছে হৈছিল, cj.cj.gjin.gj.com 'a nobra ashvini@gmai ক'ব বিষয়ে আৰু সংস্থা আহে বিষয়ে বিষয়ে বিষয়ে কৈ বিষয় কৰিব সম্পৰ্কী কৰিব হৈ বিশ্বিদ্ধ কিব বিষয়ে বিষয় বিষয় প্ৰথম ক'ব বাৰ নিমুক্ত বিষয়ে বাৰ হৈ যে কোন

(udirwa due BBUPA-001 P-P00358.2317-18, 18'06 ya dias idak - dipama sasara b Incalana - sa uto 224 na di

का अन्य करणे हो। विश्वासी स्थाप, प्रीच्या का पुत्र केया कि होता के प्रीचार कर करणे केया कि

विभाग । २२ ब्यूमार्ट २०२५ ब्यान - वर्ड दिल्ली

on elj de film. Per en ener seen el en de beste name en reg 222, central COI en d eque en austerête e enteren s-44 Mehra Astwert@grae La

दीपि शर्मा ने लगाई लंबी छलांग

स्मृति मंधाना की बादशाहत बरकरार

ा क्रिक्टि

0



सेनाम १३ देखाइ भिरादा आमाण सूचना पूर्वित्वा वह १-६४१ पूर्वित्वा वह १-६४१ प्राप्त कर्मा वह १०६४ स्थाप वह १०६४ प्राप्त कर्मा वह १०६४ स्थाप वह १०६४ राज्य कर्माण कर्म वह १०६४ स्थाप वह राज्य कर्माण कर्म वह १०६४ स्थाप राज्य विद्या कर्माण पूर्ण प्राप्त क्षेत्र कर्म राज्य विद्या कर्मण्य क्षाण व्याप क्षेत्र व्याप

NOTICE INVITED TESTED (Throughold dding in SAPSRM System) d strategrame to see the more inglished for all forming weather the search No. 1 Particulars of work E.M.D. Euclate of

Particular of No.D. E.A.D. Earlier of 18 A.D. Earli

SAVE ELEGIRICATE S-44633 Executive Director (Truns CSPTCL: Raipus (C.G.)

छत्तीसगढ् श≢सन जाल संसाधन विश्वाप कार्यालय कार्यग्रहान अभियता, खाला जल संसाधन सम विसासगुर जिला बिलासगुर (छग.)

eProcurement Portal: https://eproc.cgstate.gov.in

(१२२भ-आभेग्रज) सरम निकेत क १७३४३% निवद मुचन क ७३/प लेलि। 2025-26

নিকার এমার্ড লিঃ বিশক্ত 11.08.2025 17:30 কছ জান টুন নিকাম এমার্ড জান্ত বিশক্ত 11.08.2025 17:30 কছ জান लहुन निकार अस्ति के तार उनाक 11,00,000 17750 रेक अप लहुन निकार आमंत्रिक की जाती है कार्य का नाम खारंग जलाका योजन के मांबा तट मुख्य नार के आर.डी. 33015 में, पर की, आर.बी, की निमांध

अनमानित लानत-स्ट. 45.92 लाख

निविद्धा की अनुमानित लगत एस औ आर दिनांक 22.08.2022 के

ਦਾ ਕਿਰਨਾ ਦੂਵੇਂ ਕਿਸਤ ਤਿਕਤ ਕਰੋਸ਼ਾਤ ਗੁਸਤ ਤੀ ਵੇ-ਯੁੱਕਫੀਪੁੱਟ ਕੇਰ भइट https://eproc.ogslate.gov.ir ऋदिनांक 28.07.202 : सम 17.31 बजे से देखे तथा अअनतोड़ किये जा स्कृते हैं।

नोट ा जिला में बाद सेने तेतु टेकेटाने को ई-प्रोक्योरमेट सेनमाईट https://eproc.ogstate.gov.in पर नमाकित/पंजीयन तक लोक निर्माण विभाग वर्ष एकोव्यन पंजीयन पण्डली के अंतर्गन नेकेसर का स्पयन

प्रेणी में पंजीयन करना अनिवार्य है। 2. निविद्यवर को इस निब्दा में वर्ष 2024 में जारी किए पर्वे Pre Bid Qulification certificate (Valid up to 30.09.2025) व्य उपयोग

खारंग जल संसाधन गंभा

बिलासपुर (छण्.)

MAHAMAYA STEEL INDUSTRIES LIMITED

NOTICE TO SHAREHOLDERS

OPENING OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGENENT OF TRANSFER REQUESTS OF PHYSICAL SHARES

ः मैन्दुइल पद्धति निधित्व सूचना ः



सनई में बालवानों के रेक्निय से यह । स्थानां को शाय स्थानों का शाय स्थानों का शाय स्थानों को शाया स्थान राज्ये आ स्थान से सह । को स्थान पर परिवार में सिता के स्थान से सह । को स्थान पर परिवार में सिता के सिता के साम से सिता के सिता के साम के रिवार में सिता के सित

आहंडीएएएस्टी फर्म्स्ट वेटन दिनिनेस्टेड (व्यवस्तित केटिन) करोड़ विकास और अहिंग्यस्ती केट तिमार्थ के कार सामर्थिक। अहिंडिंग: LEST 1925-147-LEST 797 विकास कार्यस्त : - कार्यस्त करात स्त्री तीतात हैम्स्यन रोड़, पंजीद, सन्धं- 400031 (कोट) कार्यस्त : - 1214-24 (400) विकास : +)144-456 (402)



परिशिष्ट (४ [नियम ८(1)] कब्जे संबंधी नोटिस (अबल सपीत के लिए)

जबरि अवीतरतावरों ने आईडीएकडी करते के निर्मिद्ध सम्मानीय बीतरता प्रातृत निर्मिद्ध और आईडीएकडी कि निर्मिद्ध के सम्मानीय है। कि मुद्दे और आईडीएकडी कि निर्मिद्ध के सम्मानीय है। कि मुद्दे के स्वर्ध में स्वर्ध के स्वर्ध में स्वर्ध के स्वर्ध में स्वर्ध के स्वर्ध में स्वर्ध के स्वर्य के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर्ध के स्वर् 20,0°1.48,15,- "रुप्यवास्त वाचा बुक्त हमार एक सा अनुसाधार आ वह रूप से माने में आलावात का युवा के आहे. हाथ की अस्तर कर की के स्वारा आपका जिया है। प्रधानताओं वह या तो हुक्त में अस्तर कर की के सार पार्टल जीन्यान है। हमार का को प्रभावत् पूर्वित किया जात है के प्रधानताओं को प्रधान करते हमा ते के प्रभावत् (4) के मारा प्रथं हमारा हमारा हमारा 2007 के स्थाप के को जाते हैं इस या मारावत् को प्रधान करते हमें प्रधानता सार्थित है। तेम-ल न करने को योवानी दी जाते हैं और सार्था से कोई में रोज ने अमेरिकार प्रधान के सार्थ हमें प्रधान करते हमारा ह

उचारकर्ता का व्यान सुरक्तित परिरूपतियों को भुनाने के लिए उपलब्ध रूमय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (3) प्रावचारों की और आकर्षित किया जाता है।

व्यवकात को आर आरुपमा क्या जाना है। अंधक स्वति का वेदरण आद तीच भटना सरख्य 41 क बंद पूरा दुकार और बार्चार कुत संजयत 9771.50 वर्ग प्यीर, जिसमें से निर्मित संजयत 5203 को पहिंद भूतन पर जीर 1770.62 को प्रीट प्रधः नत पर स्थल संख्या 38 पूर्शन पर्योत स्थल पठ जी पुनन पर्योत्त सरख्या 33 के सामग्री प्रधान में भीना समुद्रांगी, स्थल पठ, पूरी पठ, स्थ्या-५०५ नए प्रध्य संख्या पर स्थित है। 47, अर आई.मी. - कीमग्रीमा, तस्बीत: बांग्यतर ित्ताः भर समृद, द्वतीसपूर -4934.9 और स्थानी सीमा पूर्व: एती,पासा, प्रवेक्त: स्थेतरह देवान की बाही, अतर, वेतुसम दीवन का घर, रहेवाः ततित वृत्त वेद्धा के घर

स्थानः महारामुद ऋण खाता संख्या: 50975401

...मध्यून औरवारी आईडीक्टनी बैठ विकिटेड (क्रकालीन केपिटल कर्न्दी: तिनिवटेड और आईडीक्प्यरी बैठ विविदेड केसाव समावेतिल)

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL, JAMUL. DISTT. - DURG (C.G.)

e-procurement Tender Notice 1st CALL Main Portal: http://eprcc.cgs-ate.gov.in

NIT No./1678/Nivida Aarms an/2025-26					Jamel Datec, 21/7/202		
System Torujer No.	Neme of work Diseospoon, if work	Protiside Amount of contract	Earnest Loney Orpost	Bid Due dute	Physical submission of EWD (FDR)		
172494	Ugradation work in Govt, Primary School Jamel No. 02 Jamel B Regrovation ryons in Clovt, High, Middle, School Ward No. 02 Land	Rs. 1502 Loos	Re 15:000:00 EMD-(FDR) in fovour of Chief Manicipal Officer, Municipal Council James Chit-Durg (C.G.)	13.03.2025	Dated 14.08.202 Time-17.30		
172495	Upgradation 5 Renovation of Navesh Privary School Wert No. 08 Shour - Camp Jainet Repair and upgradation Web, at Yard No. DR Covernment, Privary School No. 61 Janual Log adation of Navesh Primary Middle School at Devenger Ward No. 10	Rs. 2575 Larca	Pes 20 000,00 EMD (FDP) in Syons of Chief Maricinel Officer, Municipal Council Januar Dishibung (C.O.)	3,98,2005	Date # 14.03.202 Tanze 17.39		
172496	Upgradation & Renovation of Govt. Primary School Ward 16, & Upgradation & Renovation of Govt. Middle School Ward 18	Rs. 10.65 Lacs	Re. 15.600-00EMD (FDR) in favour of Chief Menicipal Officer, Municipal Occord Junut Discourg (3.6.)	12.03.2015	Dated 14.06.202 Tens-17.56		
172497	Upgradation & Renewation of Govt. Princery School Ward 26, 6	Rx. 1E90 Lact	Rs 15.000.00 EMD-(FDR) In Revour of Chief Manistral	13 93,2005	Dated 14,08 202 Time- 17,30		

कार्यात्मय नगर पंचायत पाटन जिला-दुर्ग छ.ग. //मैन्.अल पद्धति से निविद्य आमंत्रण सुपना//

निवार प्राप्त पार्टिक क्षेत्रतिक्रिया अध्यक्षणाई विकास के निवार क्षित्र कर कि उसे अध्यक्ति क्षेत्रति है । निवार प्राप्त पार्टिक क्षेत्रतिक्रिया अध्यक्षणाई विकास के निवार क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कारों क्षेत्र के प्रभाववील लाल दूर वर मुक्त बंद विविद्धार 'पार्म अ' में आमीवत की वाली है जो मार स्थीत क्षेत्र प्रस्तुकार

क (दिलिकाका पदिति) से अधोद्यसानासकता के कार्यालय में प्राप्त की जानेगी। ि (डिल्क्स्परा पडाउँ) र में अध्यक्ष्मत्यस्थाना क काराल्य निविध्य प्रस्क प्राप्त करते हुन अकेदर को अतिम निधि किंकरा प्रस्क प्रयाण को विधि निविद्या असा करने की अकिस तिथि भिवेदा ओलने की विधि कार्य का नाम 11.03.2925 মান্য কাৰ্যক 05.00 কৰা কৰ 12.03.2925 মান্য কাৰ্যক 05.00 কৰা নদ 20.03.2925 মান্য কাৰ্যক 04.00 কৰা 20.03.2925 মান্য কাৰ্যক 05.00 মাৰ্য মা বাচাৰ চেক্ক প্ৰধানৰ তিনিহা কৰা বিভাৱ মান্য কৰা বিভাৱ মান্য কৰা

व्यर्ड क्र. े 1 में परक्ष प्रदेश घर के मुख्य फरों घर कर क्रांत्री निर्माण स्वयं वर्ष क्र. 32 में चाहुरशिक भगन के समये भी जी. सेंड टॉप एन चानूना निर्माण कार्य 5000.00 7507 ाकार पार्ट हैं नहें पर पार्ट निवास करें पार्ट हैं गा 65 जब एक्स के दान बाहुकर गियोग करने बाहु गा 66 पार्ट नहीं से पास नार्ट हैं इसके कहा है बाहु गा 10 में मानीक से प्राचीक कहा पार्ट कर ही, रही केंद्र और कार्य बाहु गा 17 में मानीक से प्राचीक कहा में स्थान देशकुर पर कर नी, रही पार्ट गा 18 में रही कार्य 500,00 300/ 500.00 300/-8 बार्ड का. ८९ करणम्ब के पास नार्शी निर्माण कार्य 1.50 1500.00 300/-2 45 वार्ड क्र. १० में कुम्बर परा में कलामंच सरमात/संशास पार्थ सार्ड क्र. १३ में मुख्यमं देखान यर से अशोक निक्र यर तक सी सी. ऐंड टॉप क्यां कड़ (x, s) में अल्डमंब के चया मुक्ताय निर्माण कार 72 आई छ: 14 में सह र कोये तर से जाएंस पादण पर सक्त गर्नी 1.50

22 विश्व का 3.4 में पहल क्यार महत्त्व काराव्य पारत्य काराव्य काराव मन्द्रा नगर पालिका अधिकार्ग